



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

*Published by Authority*

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019  
*Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9875** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Mundwa has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Mundwa. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Office.

**By Order,**

Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Governmen.**

**कार्यालय नगर पालिका मण्डल मूण्डवा नागौर**

प्रपत्र क

वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	काकड माठ ईनाणा रामचन्द्र जी ढाणी से ज्ञान तालाब से गेन्द कंवर से रामू मिस्त्री से कैलाश जाट के मकान से किशोर जाट के मकान से हरनारायण कन्दोई के प्लाट से कैलाश प्रभुराम जी के मकान से पुरखाराम जाट के मकान से पार्वती आई टी आई से वाटर वर्क्स को शामिल लेते हुए एम जी टी फैक्ट्री को शामिल करते हुए रास्ता क्रॉस कर एम जी टी ऑफिस से रास्ता क्रॉस कर जवरू जी खाती के गैरेज से ओम जी दाधिच के मकान से रास्ता क्रॉस कर तेजु गौड की दुकान से रास्ता क्रॉस कर रेल्वे कॉलोनी को शामिल करते हुए रावणा राजपुत कॉलोनी को शामिल करते हुए विजेन्द्र जाट के मकान से सतु जी दर्जी के मकान से वीर तेजा कॉलोनी को शामिल करते हुए सन्तोष चांगल की बाडी से चंदु जी जाट की बाडी से रास्ता क्रॉस कर पी डब्ल्यू डी ऑफिस से अशोक तेल मील से रामप्रसाद जाट की दुकान शामिल करते हुए खजवाना फाटक के उतरी भाग काकड माठ सोलियाणा से काकड माठ ईनाणा तक
2	नगर पालिका भवन से छगना जी के मकान से रास्ता क्रॉस कर ओमप्रकाश खुडखुडिया

	<p>के मकान से रास्ता क्रॉस कर बिजली घर ऑफिस से रास्ता क्रॉस कर भाणु मिस्त्री की दुकान से चांद मिस्त्री की दुकान से रास्ता क्रॉस कर राजु सरावगी की दुकान से जुगल साद की दुकान से पुखराज सोनी की दुकान से राजु सरावगी की दुकान से तारकेश्वर मन्दिर ट्रस्ट की दुकान से रास्ता क्रॉस कर पंचायत समिति की दुकान को शामिल करते हुए कॉपरेटिव बैंक से रास्ता क्रॉस कर ब्रजेन्द्र के मकान से रामनिवास बाजिया के मकान से रामनिवास जाट के मकान से मस्जिद से रामेश्वर सोनी के मकान से गोर्वधन सोनी के मकान से सत्संग भवन से हडमान गौड के मकान से पापालाल गौड के मकान से पुखराज गौड के मकान से अमरचंद माली के मकान से रामप्रसाद माली के मकान से पृथ्वीराज माली के मकान से तुलसीराम मास्टर के मकान से केशु गौड के मकान से ओम गौड के मकान से किशना जी गौड के मकान से रामनिवास पी टी आई के मकान से रास्ता क्रॉस कर नगर पालिका भवन तक</p>
3	<p>विरेन्द्र सेवर के मकान से भवंरू राव के मकान से रास्ता क्रॉस कर पोस्ट ऑफिस से झवंरू स्कूल से रास्ता क्रॉस कर पुलिस थाना से घेवर जी जोहरी की पोल से रास्ता क्रॉस कर दीनदयाल के प्लाट से जनता प्याऊ से दीनदयाल की दुकान से रास्ता क्रॉस कर सीताराम की दुकान से हरीराम जाट की दुकान से रास्ता क्रॉस कर नारायण साद की दुकान से मंछाराम भोजावत के मकान से महिपाल जाट के मकान से मदन जी खांगटा के मकान से गोपाल मिश्र के मकान से अर्जुन जी बाजिया के मकान से सुखराम जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामचन्द्र जी जाट के मकान से पंसारियो की पोल से भवंरू राठी के मकान से पातेलियों की पोल से अणतराम जी की दुकान से बन्दुकिया लुहार की पोल को शामिल करते हुए रामदेव जी आर आई के मकान से जगदीश दाधिच के मकान से राधेश्याम जी की दुकान से बाबु साद की चक्की से रास्ता क्रॉस कर विरेन्द्र सेवर के मकान तक</p>
4	<p>हरीजी ग्राम सेवक के मकान से तुलसीराम बाबुजी के मकान से बालकिशन मन्दिर से दुधाराम जी का चबुतरा से नथु जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामलाल के मकान से रास्ता क्रॉस कर सांवताराम के मकान से दामु के मकान से प्रेम जी के मकान से चतुर्भुज के मकान से दर्जियों की गली को शामिल करते हुए रामबिलास सोनी की दुकान से रामबिलास बंग की दुकान से कैलाश सैन के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामकुवार सैन के मकान से भगवान सैन के मकान से रास्ता क्रॉस कर कमल भेडा के मकान से सुरजकरण आसोपा के मकान से दिनेश बाबु जी के मकान से भवंरू जी भोपा के मकान से मदन जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर जगदीश श्री किशन सांवताराम के मकान से महेश कम्पोडर के मकान से रास्ता क्रॉस कर जस्स जी जाट के बाड़े से हरीजी ग्राम सेवक के मकान तक</p>

5	<p>रामस्नेही रामद्वारा से नथु छीपा के मकान से वेद जी के अस्पताल से कालु चांगल के मकान से अल्लानुर घोसी की दुकान से जगदीश के मकान से रास्ता क्रॉस कर बूब भवन से गांधी जी के मकान से आत्माराम पारीक के मकान से श्रवण सैन के मकान से अस्पताल से रास्ता क्रॉस कर मांगीलाल ईनाणियां के मकान से सुखराम फौजी के मकान से कवरू की चक्की से लुहार बस्ती शामिल करते हुए आसाराम के हॉस्पिटल से रास्ता क्रॉस कर रामप्रसाद जाट की दुकान से फकीरा मिरासी के बाड़े से रास्ता क्रॉस कर दिनेश जाट के मकान से नन्दु साद के मकान से लाखोलाव को शामिल करते हुए व धुमटेश्वर महादेव को व कैलाश बाबा की बगेची छोड़ते हुए नारायण बगेची व गिरीराज मंदिर से नसिंह साद के बाड़े से रास्ता क्रॉस कर वैद वनमाली दत्त के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामस्नेही रामद्वारा तक</p>
6	<p>कन्हैयालाल पालीवाल के मकान से डुगर जी जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर मोहन जी ढोली के मकान से गिरधर के मकान से रामेश्वर जी त्रिपाठी से रास्ता क्रॉस कर पन्न जी मुण्डेल के मकान से दामोदर तिवाड़ी के मकान से श्री गोपाल सारस्वत के मकान से बियाणी की पोल से पिन्दु सोनी की दुकान से रामानुज सैन की दुकान से मौदाणियों की पोल से रास्ता क्रॉस कर ओसीया माता मन्दिर की दुकान से रास्ता क्रॉस कर लक्ष्मीनारायण नाई के मकान से शिवनारायण बूब की पोल से रास्ता क्रॉस कर रतावा की दुकान से नारायण जी साद के मकान से रास्ता क्रॉस कर मदन जी मिस्त्री के मकान से सांवला जी मन्दिर से कन्हैयालाल पालीवाल के मकान तक</p>
7	<p>बंशीवाला मन्दिर से कन्या पाठशाला से शिवनारायण बंग की दुकान से प्रभुजी जाट की दुकान से रास्ता क्रॉस कर हनुमान मन्दिर से कैलाश जाट की दुकान से रास्ता क्रॉस कर रामेश्वर जाट की दुकान से गिरीराज पान की दुकान से चारभुजा चौक को शामिल करते हुए लाहोटी की दुकान से रास्ता क्रॉस कर मदन जी मिस्त्री की दुकान से रामकिशोर बाबु जी दुकान से धर्मा सोनी के मकान से श्याम गोर्वधन सोनी के मकान से रास्ता क्रॉस कर पीन्दु सोनी के मकान से गिरीराज कन्दोई के मकान से रामेश्वर जी कन्दोई की पोल से राजु व्यास के मकान से धनश्याम खांगटा की दुकान से रास्ता क्रॉस कर आनंद भवन से ओम जी कन्दोई की पोल से रास्ता क्रॉस कर शिवराज जी बंग की पोल से रास्ता क्रॉस कर गिलडा की पोल से दुदाराम जी के चबुतरे के सामने बस्तीराम के मकान से किशोर कन्डेक्टर के मकान से प्रभुजी जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर हनुमान गुरु के मकान से बंशीवाला मन्दिर तक</p>
8	<p>चारभुजा मन्दिर से रामाकिशन जी के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामचन्द्र जी बंग के मकान से कमल नवन्धर के मकान से शिवदयाल बंग के मकान से सुरेश राठी के मकान से रास्ता क्रॉस कर सतुजी बंग के मकान से कमल बंग के गोदाम से शारदा</p>

	बाल स्कूल से भागीरथ माली के मकान से परसराम जी बजाज के मकान से अर्जुन सिखवाल के मकान से रास्ता क्रॉस कर सुरेश सोनी के मकान से मोडा की गली को शामिल करते हुए पुनमचंद जी चौब्या के मकान से रामबिलास जी के मकान से रामरतन जी कन्दोई के मकान से बंकट जी सोनी की दुकान से धर्मा सोनी की दुकान से रास्ता क्रॉस कर धर्माजी जाट की दुकान से चारभुजा मन्दिर तक
9	श्री बल्लभ नवन्धर के मकान से रास्ता क्रॉस कर पुरुषोत्तम बंग की पोल से राधु सोनी के मकान से रामनिवास काकडा के मकान से आनंद जी पावणा की दुकान से गिरीराज जी सैन की दुकान से रामपाल खत्री की दुकान से पीर जी की गली शामिल लेते हुए बजरंग जी की दुकान से सुरेश सोनी की दुकान से रामानुज भट्ट के मकान से रास्ता क्रॉस कर नन्दु जी भट्ट के मकान से रामप्रकाश काबरा के मकान से रामेश्वर दाधिच के मकान से शितला माता मन्दिर के चौक को शामिल करते हुए अशोक पाराशर के मकान से बुन्दु साई के मकान से रास्ता क्रॉस कर राधाकिशन जी जाट के मकान से अनवर लुहार के मकान से सदावतो की बस्ती को शामिल करते हुए पीरू तेली के मकान से वजीर के मकान से बिचली गली को शामिल करते हुए निसार के मकान से मदीना मस्जिद से बाऊ बाई के बाडे से रामनारायण जाट के मकान से रामचन्द्र जी नवन्धर के मकान से सीताराम जी रिणवा के मकान से रास्ता क्रॉस कर आनंद नवन्धर के मकान से श्री बल्लभ नवन्धर के मकान तक
10	इस्माईल लुहार के मकान से सारडा भवन से से बंकट जी बंग के मकान से रास्ता क्रॉस कर गोवर्धन मौदाणी के मकान से श्याम गौड के मकान से नेमीचंद मणिहार के मकान से रास्ता क्रॉस कर गिलडा के मकान से लक्ष्मीनारायण बंग के मकान से पुना कुम्हार के मकान से विठल जी भट्ट के मकान से प्रेम खाती के मकान से श्याम खाती के बाडे से पुराना गोगा जी मन्दिर से सम्पत जी खाती के मकान से सुरेश खाती के मकान से बाबु खाती के मकान से भागीरथ भार्गव के मकान से सर्वोदय स्कूल से चेनाराम भाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर बंग भवन से सुखानंद जी की पोल से भुर जी जाट के मकान से कासम तेली के मकान से इस्माईल लुहार की दुकान तक
11	रामकिशोर सोनी की दुकान से रामानंद बंग की दुकान से रास्ता क्रॉस कर श्याम बंग की दुकान से सरजु बाई के मकान से प्रेम सरगरा के मकान से सीताराम पूर्व चेरमैन के मकान से रास्ता क्रॉस कर रोडाराम जाट के मकान से भवंरलाल जाखड के मकान रामप्रसाद जाट के मकान से सिंगजी की पोल से सतीश जाट के मकान से काबरा की पोल से रास्ता क्रॉस कर मंगलचंद खाती के मकान से मांगीलाल कुम्हार के मकान से गोगामण्ड चौक से जेठमल जी खाती के मकान से रामकिशोर खाती के मकान से रामनिवास भट्ट के मकान से रास्ता क्रॉस कर प्रकाश औड़ा के मकान से हनुमान

	मक्कड के मकान से मौदाणियों की गली को शामिल करते हुए फकीरा बैण्ड की दुकान से रामकिशोर सोनी की दुकान तक
12	शिवरतन पाराशर के मकान से लक्ष्मीनारायण आसोपा के मकान से दीनु खत्री की दुकान से सदीक छीपा के मकान से लुण जी खाती की पोल से जयराम बारासा की दुकान से मेघवाला बस्ती को शामिल करते हुए किशतुरराम के मकान से फारुख छीपा के मकान से रास्ता क्रॉस कर तुलसीराम खाती के गैरेज से भीखा मास्टर के मकान से रामनिवास जी जाट के मकान से तुलसीराम खाती के मकान से रास्ता क्रॉस कर लुण जी खाती के मकान से गोपाल जी भट्ट की पोल से भरत जी वेद की पोल से रास्ता क्रॉस कर ओमप्रकाश ढोली के मकान से रास्ता क्रॉस कर मेहबूब मिरासी के मकान से रास्ता क्रॉस कर सम्पत गुरु के मकान से शिवरतन पाराशर के मकान तक
13	पालडी चौराहा से बाबू ओढ के मकान से खाणियों से रास्ता क्रॉस कर मोहन जी खटीक के मकान से रामनिवास जी जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर सतार छीपा के मकान से रास्ता क्रॉस कर मो शरीफ छीपा के मकान से भवरलाल खटीक की दुकान से रास्ता क्रॉस कर बिरम जाट के मकान से रास्ता क्रॉस कर गोगाजी, रामदेव जी मन्दिर से सतु काकडा के मकान से रास्ता क्रॉस कर सत्यनारायण मन्दिर से पाठशाला स्कूल से मनसुख महाराज के मकान से कैलाश बाबा की बगेची से घुमटी महादेव मन्दिर से लाखालोव तालाब छोडते हुए सत्यनारायण डिडेल के मकान से मोहनराम के बाडे से रास्ता क्रॉस कर नथु मिरासी के मकान से अजीत नायक के मकान से रास्ता क्रॉस कर जोगी व नायक बस्ती को शामिल करते हुए लाखोलाव खेल मैदान से रास्ता क्रॉस कर चौकीदारो के शमशान से धर्मराम के मकान से पालडी चौराहा से बाबू ओढ के मकान तक
14	तहसील भवन से खजवाना फाटक से रास्ता क्रॉस कर माँडल स्कूल से रामपाल जाट की ढाणी बराणी की ढाणियों को शामिल करते हुए काकड माठ पालडी पिचकिया काकड माठ मिरजास वीर तेजा कॉलेज रास्ता क्रॉस कर प्रभु जी व क्यार की ढाणियों को शामिल कर पाचुण्डियां की ढाणियों को छोडते हुए तहसील भवन तक
15	बाबु चौकीदार के मकान से बडमाता मन्दिर काकड माठ भडाणा से कुम्हारो का नाडा बडी रिडी से कामुण्डा की ढाणियों को शामिल करते हुए काकड माठ पालडी से रास्ता क्रॉस कर कामण्डा महादेव मन्दिर से बीरमराम जाट की ढाणियों व ओमप्रकाश मंगल जी की ढाणी से पाचुण्डियां की ढाणियों को व कुशाल बाबा की ढाणियों को शामिल करते हुए सती माता मन्दिर से रास्ता क्रॉस कर तेजाराम मेघवाला के बाडे से शैतानराम, लिक्षमणराम के मकान से मेहराम के मकान से रास्ता क्रॉस कर पप्पु के मकान से सुखराम के मकान सीताराम के मकान से सीताराम के मकान से बाबु

	चौकीदार के मकान तक
16	<p>कृष्ण गौशाला से बंशी खटीक के मकान से पुनाराम मेघवाला के मकान से हरीजन बस्ती को शामिल करते हुए रामेश्वर खाती के बाड़े से जगदीश खाती के बाड़े से रास्ता क्रॉस कर रामु खाती के गैरेज से रास्ता क्रॉस कर जगराम जाट के मकान से मुकेश के मकान से सीताराम के मकान से रास्ता क्रॉस कर जीएलआर चौक शामिल लेते हुए रामेश्वर के मकान से बचनाराम के मकान से सम्पत के मकान से हरी कुम्हार के बाड़े से रास्ता क्रॉस कर बाडी से पोकण्डी गणेश मन्दिर पोकण्डी तालाब को शामिल लेते हुए खातियों की बगेची से बालकिशन भट्ट से सम्पत जी जाट के मकान से रतन जी पटवारी की पोल से भवरू जी मास्टर के मकान से रास्ता क्रॉस कर उस्मान छीपा के मकान से गुन जी जाट की पोल से कवरू खाती के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामचन्द्र जी की पोल से सहदेव मेघवाल के मकान से किशोर जमादार के मकान से रास्ता क्रॉस कर पुखराज के मकान से कृष्ण गौशाला तक</p>
17	<p>सीताराम चौकीदार की दुकान से सहीराम के मकान से भगवान के मकान से रास्ता क्रॉस कर चौकीदारो का चौक शामिल करते हुए रामकुवार के मकान से रास्ता क्रॉस कर हिमताराम के मकान से रास्ता क्रॉस कर चम्पा के मकान से रूपा के मकान से बद्री के मकान दुलाराम के मकान से रास्ता क्रॉस कर गंगाराम पुत्र हणुतराम के मकान से रामकुवार से रास्ता क्रॉस कर राजकीय स्कूल 3 से गौरव पथ होते हुए छोटी रिडी से सुरजाराम के प्लाट से बनबागरियों की बस्ती को शामिल करते हुए गंगानारायण जी के प्लाट से रास्ता क्रॉस कर जीएसएस से इन्द्रा कॉलोनी को शामिल करते हुए श्यामलाल के मकान से सुनिल विश्वास के मकान से खेताराम के मकान से हरजी के मकान से रास्ता क्रॉस कर आशानाथ बगेची से मुग्नाराम के मकान से जयपाल के मकान से परसाराम के बाड़े से चम्पालाल खाती के मकान से रास्ता क्रॉस कर सीताराम चौकीदार की दुकान तक</p>
18	<p>नटवर मिश्र के मकान से रामप्रसाद कुम्हार के मकान से रास्ता क्रॉस कर मनोहर कुम्हार के मकान से मनीराम मास्टर के मकान से समसु तेली के मकान से राधाकिशन जाट के बाड़े से हकीम तेली के मकान से रास्ता क्रॉस कर पप्पु सदावत के मकान से रास्ता क्रॉस कर बाबु तेली के मकान से रामलाल जी सदावत की टयुबवेल से मांगीलाल जी सदावत की टयुबवेल से दिनेश जाट की होटल से सन्त्या गैस गोदाम से अम्बेडकर भवन से रास्ता क्रॉस कर नहर जीएलआर से खेतण्डा कुम्हारो के शमशान से खातियों के शमशान से मिश्र जी की बगेची से नटवर मिश्र के मकान तक</p>

19	फतु कुम्हार के मकान से धनश्याम कुम्हार के मकान से ठाकर राम के मकान से रिमझु तेली के मकान से रास्ता क्रॉस कर गुलामदीन के मकान से नुर मो के मकान से अमीरदीन के मकान से बुन्दु के मकान से रास्ता क्रॉस कर गुलाब जी के मकान से हरी जी खाती की पोल से रास्ता क्रॉस कर लक्ष्मीनिवास भट्ट की पोल से वासु जी कन्दोई के मकान से मुदडा के मकान से वासुदेव पण्डित के मकान से रास्ता क्रॉस कर श्याम कोठी वाले के मकान से जगदीश दाधिच के मकान से पथंवारी को शामिल करते हुए फतु कुम्हार के मकान तक
20	बीरा तेली के मकान से हाजी अल्लानुर के मकान से निसार तेली के मकान से रास्ता क्रॉस कर मुन्ना तेली के मकान से भंवरी मैमबर के मकान से रास्ता क्रॉस कर मो हनीफ की दुकान से रामधन जी जाट के बाडे से रास्ता क्रॉस कर मेहबूब के मकान से अनवर तेली के मकान से सतु साद के मकान से भैसापा से राधाकिशन जाट के खेत से सलीम के बाडे से राधाकिशन जाट की होटल से भैसापा से रास्ता क्रॉस कर गुलाब जी तेली के मकान से पशु चिकित्सालय से रास्ता क्रॉस कर ओम जी काला के बाडे से रमजान तेली के मकान से बीरा तेली के मकान तक
21	हुसैन जी तेली के मकान से जवरु जी तेली के मकान से कबीर की दुकान से रास्ता क्रॉस कर अजीज तेली के मकान से भंवरु जी गालवा की दुकान से रास्ता क्रॉस कर रामप्रसाद जाट की दुकान से नगर पालिका की प्याऊ से रास्ता क्रॉस कर महेश की होटल से खाण्डल माता मन्दिर से काकड माठ ईनाणा से काकड माठ रूपासर से रोल सडक सुभाष के आरे से रास्ता क्रॉस कर गणगौर होटल को छोडते हुए जगदीश मील से होटल आखातीज से सारडा जी की मील से विजयलक्ष्मी मील से रास्ता क्रॉस कर हडमान के आरे से रास्ता क्रॉस कर पप्पु गरेज से जुम्मा तेली के मकान से रास्ता क्रॉस कर मनफुल के मकान से सतार के मकान से रास्ता क्रॉस कर हुसैन जी तेली के मकान तक
22	भंवरु जी तेली की दुकान से नेनाराम जाट के मकान से फारूख तेली से रास्ता क्रॉस कर अलीजा तेली के बाडे से खाजु तेली के मकान से जीएलआर से सतार दिल्लीवाल के मकान से रास्ता क्रॉस कर रफीक तेली के मकान से अम्मु जी मास्टर के मकान से सलेमान तेली के मकान से भंवरु जी तेली की दुकान तक
23	गफार तेली की दुकान से चांद हाजी के मकान से ओम जी पाराशर की दुकान से पुराना पेट्रोल पम्प से सुरतगढ वाले के प्लाट से रास्ता क्रॉस कर बरकत साई के मकान से चांद साई के मकान से रास्ता क्रॉस कर हडमान मेघवाल के मकान से जगमाल माली के मकान से कालु धोसी के बाडे से गोवर्धन काकडा के मकान से कालु धोसी के मकान से भवंरलाल भाटी के मकान से रास्ता क्रॉस कर भवंरलाल के प्लाट से प्रेम जी खटीक

	के मकान से गफार तेली की दुकान तक
24	वासुदेव जी कन्दोई के मकान से गोप जी चौब्या के मकान से भुर जी माली के मकान से रास्ता क्रॉस कर माली के बाडे से हकीम तेली के मकान से अल्लानुर तेली के मकान से जवरुदीन तेली के मकान से रास्ता क्रॉस कर गुलामदीन कुरेश की दुकान से धोबियो की गली को शामिल करते हुए व सारण को शामिल करते हुए नागौरी फलसा हनुमान मन्दिर से दाधिच भवन से महावीर जी बजाज के मकान से रास्ता क्रॉस कर रामा काकाडा के मकान से वासुदेव जी कन्दोई के मकान तक
25	बुधाराम जाट के मकान से गिरधारी कुम्हार के मकान से रास्ता क्रॉस कर चुन जी जाट के प्लाट से भंवरू जाट के मकान प्लाट से रास्ता क्रॉस कर रतन मास्टर व रतन सेवर के प्लाट को शामिल कर पुराना नगर पालिका ऑफिस से मेहबूब छीपा के मकान से रास्ता क्रॉस कर चांद जी नारिया के मकान से रास्ता क्रॉस कर बाबु तेली की दुकान से नगरपालिका गैरेज को शामिल करते हुए गुलामदीन कुरेशी की दुकान से जमान साईं के मकान से रास्ता क्रॉस कर जुम्मा की होटल से इकरामुदीन धोबी के मकान से रास्ता क्रॉस कर अमीन कुरेशी के मकान से बुधाराम जाट के मकान तक

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका मूण्डवा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।